

थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा युवती की हत्या की घटना का 36 घण्टे में सफल अनावरण कर हत्यारोपी

अभियुक्त गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्रीमती सुनीति के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अजय प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.02.2021 को थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा अज्ञात युवती की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर हत्यारोपी अभियुक्त मृतका के छोटे भाई अंकित को गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2021 की सुबह हिल्टन स्कूल के पास बाईपास रोड पर एक अज्ञात लडकी का शव पडा होने की सूचना पर क्षेत्राधिकारी नगर, थानाध्यक्ष अमरोहा देहात व फील्ड यूनिट टीम तत्काल मौके पर पहुंची व घटना स्थल व आस-पास गहनता से जाँच कर साक्ष्य संकलन किये गये । मृतका के शव के पास से बरामद आई.डी कार्ड से उसकी पहचान कु0 नेहा पुत्री दिनेश चौधरी उम्र 25 वर्ष निवासी मौ0 पीरगढ थाना अमरोहा नगर के रूप में हुई । घटना के सम्बन्ध में थाना अमरोहा देहात पर मृतका कु0 नेहा के चाचा कमल चौधरी की तहरीर पर मु0अ0स0 38/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती सुनीति द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया व घटना के शीघ्र अनावरण हेतु 03 पुलिस टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये मृतका कु0 नेहा चौधरी की हत्या उसके छोटे भाई अंकित द्वारा किये जाने, सी.सी.टी.वी फुटेज में घटना स्थल से करीब 100 मी0 की दूरी पर अपनी बडी बहन (मृतका) के साथ घटना स्थल की ओर जाते हुये दिखने आदि प्रयाप्त साक्ष्य मिलने पर थाना अमरोहा देहात पुलिस द्वारा कल दिनांक 09.02.2021 की रात्रि करीब 09.00 बजे अभियुक्त अंकित को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर हत्या करते समय पहने कपडे जिन पर खून के छीटे लग गये, को कल्याणपुरा बाईपास से हमीदपुरा के पास झाडियों से बरामद किया ।

पृष्ठताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित ने बताया कि मेरी बडी बहन नेहा करीब 04 वर्ष से वेस्ट लक्ष्मी नगर दिल्ली में किराये के मकान में रहकर नोएडा नौकरी करती थी तथा मैं उसके पास अक्सर आता-जाता रहता था । मेरी ननिहाल ग्राम सलामतपुर निवासी चन्द्रपाल जाटव ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 18.01.2021 को थाना डिडौली पर मेरे व मेरे ममेरे भाई अक्षय पुत्र देवेश उर्फ टिल्लू निवासी ग्राम सलामतपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 23/21 धारा 363/376डी/342 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST Act पंजीकृत कराया था । कोई बचाव का रास्ता न देख मैं अपनी बहन की हत्या कर चन्द्रपाल जाटव व उसके परिवार वालो के खिलाफ मुकदमा लिखवाकर मैं अपना बचाव करना चाहता था । इसी योजना के तहत दिनांक 07.02.2021 को मैं गाँधी मूर्ती चौराहा टैक्सी स्टैंड से गाडी बुक कर दिन में समय करीब 01.30 बजे अपनी बहन को दिल्ली लेने चल दिया और समय 05 बजे शाम को दिल्ली पहुंच गया । दिल्ली पहुंचने पर अपनी बहन को फोन कर कहा कि चन्द्रपाल जाटव के घर वाले सुलह- समझौता करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा वहाँ रहना आवश्यक है इसलिये तुम मेरे साथ अमरोहा चलो । इस बात पर भरोसा कर मेरी बहन मेरे साथ दिल्ली से अमरोहा के लिये चल दी । जोया रोड पर अमरोहा ग्रीन से थोडा पहले मैंने पुलिस से बचने का बहाना कर कार रूकवा ली और हिल्टन स्कूल के निकट एक खाली प्लाट में ले जाकर जेब में रखे फीते से उसका गला दबाने की कोशिश की जिससे वह नीचे गिर गयी और वही पर पडी ईट से सिर पर 2-3 वार किये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और मैं आवास विकास कालोनी स्थित अपने रिस्तेदार के यहा जाकर सो गया । अगले दिन सुबह अपने खून से सने हुये कपडे पैंट, जैकेट, जूते व टोपा पालिथिन में रखकर कल्याणपुरा बाईपास से हमीदपुरा के पास झाडियों में फेक दिया ।



गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अंकित पुत्र दिनेश चौधरी निवासी मौ0 पीरगढ थाना अमरोहा नगर मूल निवासी ग्राम पचौकरा थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।

बरामदगी का विवरण: -

1. अभियुक्त के खून से सने हुये कपडे ।
2. आलाकत्ल (नीले रंग का फीता, दुपट्टा और खून से सनी ईट) घटना स्थल से बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री संजय तोमर प्रभारी सर्विलांस/साईबर सैल जनपद अमरोहा
2. निरीक्षक श्री मोहित चौधरी प्रभारी S.O.G/स्वाट जनपद अमरोहा ।
3. थानाध्यक्ष श्री सुरेशचन्द गौतम थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
4. उ0नि0 श्री लवनीश चौधरी थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।
5. हे0का0 86 गिरिश बाबू थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा
6. का0 अनिल कुमार सर्विलांस सैल टीम जनपद अमरोहा ।
7. का0 गौरव शर्मा S.O.G/स्वाट टीम जनपद अमरोहा ।
8. का0 1033 नीरज कुमार थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा ।